



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 217) पटना, सोमवार, 11 मार्च 2024

गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना
7 मार्च 2024

सं० कारा/बंदी क0-06/16 पार्ट-II-2053—माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पेटिशन (Civil) संख्या-406/2013 Re-Inhuman Conditions in 1382 Prisons में दिनांक-30.01.2024 को पारित न्यायनिर्णय की कंडिका-07 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1557 दिनांक-20.02.2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (C) 406 of 2013 In Re-Inhuman conditions in 1382 prisons में दिनांक-16.02.2024 को आदेश पारित करते हुए निम्नवत् रूप से निदेशित किया गया है:-

"1. This application has been moved by learned Amicus Curiae praying inter alia that besides the members identified by this Court to be part of a Committee in each State Government/Union Territory in terms of para 7 of the order passed on 30th January, 2024, the senior most lady judicial officer in the District may also be included as a part of the Committee to give a fair assessment of the available security measures/ hygiene measures/health care infrastructure/welfare of women prisoners/ facilities for children lodged with their mothers in jails/barracks in each district. The said Committee may also include the Superintendent of Women Jails/women barracks, wherever possible.

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1557 दिनांक-20.02.2024 द्वारा गठित समिति को निम्नवत् रूप से संशोधित किया जाता है:-

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | —अध्यक्ष |
| 2. जिलाधिकारी | —सदस्य |
| 3. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | —सदस्य |
| 4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार | —सदस्य (समिति के संयोजक) |
| 5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित वरीयतम महिला न्यायिक पदाधिकारी | —सदस्य |
| 6. काराधीक्षक | —सदस्य |

4. उक्त समिति नये काराओं के निर्माण/क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ कारा में उपलब्ध सुरक्षा/स्वच्छता/चिकित्सा व्यवस्था/महिला कैदियों के कल्याण/कारा में संसीमीत महिलाओं के साथ रह रहे बच्चे एवं बैरक के संबंध में अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी। यह समिति महिला जेल/महिला बैरक के अधीक्षक, जो संभव हो, को भी सदस्य के रूप में नामित कर सकती है।

5. उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
प्रणव कुमार,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 217-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>